

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने हेरिटेज हाइट्स प्लान का समर्थन किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 अगस्त, 2020) – बुधवार, 5 अगस्त को अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, ब्रैम्पटन के अंतिम अविकसित क्षेत्र: हेरिटेज हाइट्स (Heritage Heights) के लिए प्लान का समर्थन किया।

4,000 एकड़ में फैला हुआ और ब्रैम्पटन के कुल क्षेत्र में से 1/16 में बना हुआ, हेरिटेज हाइट्स, नॉर्थवेस्ट ब्रैम्पटन में स्थित है। यह मेफील्ड रोड (Mayfield Road) से क्रेडिट रिवर (Credit River) वैली तक और विंस्टन चर्चिल बुलेवार्ड (Winston Churchill Boulevard) से मिसीसागा रोड (Mississauga Road) तक फैला हुआ है। इसे काम और रिहायश संबंधी विकल्पों वाली एक संपूर्ण, पूरी-सेवा वाली, मिलेजुले प्रयोग वाली जगह – नए टाउन सेंटर (Town Centre) के लिए, प्रस्तावित जगह के तौर पर ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) में उजागर किया गया था। हेरिटेज हाइट्स के लिए प्लान, समुदाय बनाने के लिए सबसे बढ़िया पद्धतियों को दर्शाता है, जहां भविष्य में निवासी और इम्प्लायर्स, स्वस्थ जीवनशैली और अच्छी किस्म की ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। यह व्यापक सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह रहने, काम करने, सीखने और खेलने के लिए, एक स्थिर, जीने योग्य, जोशीली और स्वस्थ जगह के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है।

समर्थित, हेरिटेज हाइट्स प्लान के अधीन, ब्रैम्पटन के लिए महत्वपूर्ण रिहायश और नौकरियों के लिए वृद्धि के अवसर हैं। प्लान, हायर ऑर्डर ट्रांज़िट तक सुविधाजनक पहुंच के साथ, कई प्रकार के रिहायश संबंधी विकल्प पेश करता है, जिनमें शामिल हैं, प्रस्तावित गो (GO) स्टेशन और ट्रेल्स व खुली जगहों (ओपन स्पेसिज) का जुड़ा हुआ नेटवर्क। प्लान का मुख्य हिस्सा, केवल ट्रकों के लिए समर्पित एक लेन सहित, एक उत्तरी/दक्षिणी शहरी मोटरवे है, जो प्रस्तावित जी.टी.ए. वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कोरिडोर (GTA West Transportation Corridor) से लेकर हेरिटेज हाइट्स तक का एक विकल्प है। यह मुख्य बुलेवार्ड, समुदाय के लिए मिलेजुले प्रयोग वाला शहरी केंद्र बनाएगा, जहां निवासी और आगंतुक (विजीटर) खरीदारी कर पाएंगे, लोकल रेस्टोरेट्स का आनंद ले सकेंगे, कारोबार शुरू कर पाएंगे और स्वस्थ, सक्रिय व जोशीली जीवनशाली का हिस्सा बन सकेंगे। प्रस्तावित वेलनेस डिस्ट्रिक्ट (Wellness District), जिसमें भविष्य के संभावित अस्पताल और अतिरिक्त मेडिकल सहयोग सेवाओं के लिए ज़मीन शामिल है, मुख्य शहरी मोटरवे के साथ स्थित है। प्लान के परिणामस्वरूप, सबसे अधिक वातानुकूलित तरीके से बनाया जाने वाला, एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ, आधुनिक समुदाय विकसित होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए हेरिटेज हाइट्स, ब्रैम्पटन के निवासियों के विचारों को दर्शाता है, सिटी संबंधित स्टैकहोल्डर्स के साथ, अपनी व्यापक सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रिया जारी रखेगी। सिटी, आवश्यक तकनीकी अध्ययन भी करेगी। साथ ही, यह संशोधित सेकंडरी प्लान बनाने के लक्ष्य के साथ, सरकार के अन्य महकमों के साथ इकट्ठे मिलकर काम करेगी। यह 2020 के अंत तक पूरा होने वाला, प्रक्रिया का अगला चरण है।

हेरिटेज हाइट्स के बारे में और इस क्षेत्र के लिए सिटी के प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में और जानकारी के लिए,

[www.brampton.ca/nwbrampton](http://www.brampton.ca/nwbrampton) पर जाएं।

## हवाले

“संपूर्ण, स्थिर और जुड़े हुए समुदाय बनाना, सिटी काउंसिल की प्राथमिकता है, जिनसे निवासी बढ़िया किस्म की ज़िंदगी कायम कर सकें। यह हमारे ब्रैम्पटन 2040 विजन को पूरा करने में, हमारी मदद के लिए भी जरूरी है। ब्रैम्पटन के अंतिम अविकसित क्षेत्र के तौर पर, इसे बिल्कुल शुरू से बनाने का यह रोमांचक अवसर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह प्लान, नॉर्थवेस्ट ब्रैम्पटन में, नौकरियां, किफायती घर लाते हुए और रहने, काम करने, सीखने और खेलने का अवसर पैदा करते हुए, वह सब कुछ करेगा।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ने पूरे ब्रैम्पटन के, हर अनुभव और पृष्ठभूमि वाले निवासियों के बहुमूल्य सुझाव मांगे थे और इस जरूरी सहयोग को, हेरिटेज हाइट्स प्लान में निश्चित तौर पर दर्शाया गया है। संपूर्ण प्लान के हिस्से के तौर पर 2040 विजन, पूरे विकास को ध्यान में रखते हुए, योजना बनाने के हमारे तरीके में असली बदलाव ला रहा है। हेरिटेज हाइट्स प्लान, इन लक्ष्यों को पूरा करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे इसका समर्थन करने पर गर्व है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हेरिटेज हाइट्स, आगे बढ़ने की सोच वाले, चिंतनशील और खूबसूरत समुदाय का विकास करने का ऐसा बेमिसाल अवसर है, जिस पर ब्रैम्पटन के निवासी गर्व कर सकें। जनता और वैसे ही जोशीले स्टैकहोल्डर्स को शामिल करना जारी रखते हुए, हम उनके जोश और शानदार योगदानों के लिए, उनके आभारी हैं। ब्रैम्पटन के लोग, सबसे बढ़िया सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। यह प्लान, कई तरीकों से निवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पिछले पांच वर्षों से, हम हेरिटेज हाइट्स के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद के लिए, ब्रैम्पटन के स्टैकहोल्डर्स, ज़मीन के मालिकों और निवासियों के सहयोग से काम किया है। प्लान उस विजन को शामिल करता है, जो ज़मीनों को संपूर्ण संस्था के तौर पर विकसित करे और भविष्य में, स्थिर, जोशीले और किफायती विकास की योजना बनाने के लिए दिशा को उजागर करे। हमें इस प्लान का समर्थन करने पर गर्व है। हम नॉर्थवेस्ट में एक जीने योग्य और जुड़ा हुआ समुदाय प्रदान करने में आगे बढ़ने के लिए, सभी पक्षों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे।”

- माइकल पलेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, और डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह हमें सिटी में, योजना बनाने और ब्रैम्पटन के निवासियों की जरूरतों और विचारों को दर्शाने वाला समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करता है। हेरिटेज हाइट्स प्लान, हमें क्षेत्र के लिए वह सब करने में सक्षम बनने में, एक कदम और आगे लेकर जाता है। स्टाफ, पूरी तरह से जीने योग्य, जुड़ा हुआ और संपूर्ण समुदाय बनाने के लक्ष्य के साथ, हेरिटेज हाइट्स सेकंडरी प्लान संशोधित करने में, निवासियों, ज़मीन के मालिकों और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ना जारी रखने के लिए उत्साहित है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)